



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1104) पटना, वृहस्पतिवार, 21 नवम्बर 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2024

एस0 ओ0-496 दिनांक-21 नवम्बर 2024—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची-1(ब) के स्तंभ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आर्ध्व परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63 X4.93 X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत-  $54740.5 \div 6 = 9123.41$

## अनुसूची-1(ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	(1) पापड़ उद्योग, (2.) नाविक के नियोजन, (3.) अगरबत्ती उद्योग, (4.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर)	अधिसूचना संख्या-1498, 1499 दिनांक-14.03.2024 गजट सं०-263दिनांक-15.03.2024	04 नियोजन

## अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022+01.10.2022 +01.04.2023+01.10.2023+01-04-2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक-01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	350.00+7.00+14.00+7.00+14.00=392	1.00	393.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	447.00+9.00+18.00+9.00+18.00=501.00	2.00	503.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	545.00+11.00+22.00+11.00+22.00=611.00	2.00	613.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षी / लिपिकीय	10071.00+201.00+403.00+201.00 + 403 =11279.00	42.00	11321.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिसपर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जनवरी-जून 2024** के औसत के आधार पर **01 अक्टूबर, 2024** से देय होगा और इस के बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-1)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,  
संयुक्त सचिव।

30 सितम्बर 2024

एस० ओ०-497 एस० ओ०-496 दिनांक-21 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-15/2021 श्र०सं०-2)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,  
संयुक्त सचिव।

**The 30<sup>th</sup> September 2024**

**S.O. 496 Date 21 November 2024**—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**Schedule-1 (A)**

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
March, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
<b>Total</b>			<b>54740.5</b>
<b>Second First Yearly Average of the year January to June,2024. <math>54740.5 \div 6 = 9123.41</math></b>			

**SCHEDULE-1 (B)**

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2024	Total
1	2	3	4
1	(1.) Papad Industry (2.) Sailars employment (3.) Agarbati Industry (4.) Employment of SafaiesKaramcharis (Exculding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993)	Notification No- 1498,1499 Dated- 14-03-2024 Gazette No.- 263 Dated- 15-03-2024	04 Employment

**SCHEDULE -II**

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+0 1.04.2024 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	350.00+7.00+14.00+7.00+14.00= 392	1.00	393.00 Perday
2.	Semi skilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
3.	Skilled	447.00+9.00+18.00+9.00+18.00= 501.00	2.00	503.00 Perday
4.	Highly Skilled	545.00+11.00+22.00+11.00+22.00= 611.00	2.00	613.00 Perday
5.	Supervisory/ Clerical	10071.00+201.00+403.00+201.00+ 403 =11279.00	42.00	11321.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January to June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1<sup>st</sup> October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-15/2021 L&R-1)  
By the order of the Governor of Bihar,  
Rajeev Ranjan,  
Joint Secretary.

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1104-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>